



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 220 राँची, गुरुवार, 13 फाल्गुन, 1937 (श०)
3 मार्च, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

26 फरवरी, 2016

अधिसूचना संख्या- 1/स्था०/मु०स्था०/न०वि०/-112/15-**1038**--श्री घनश्याम कुमार मल्लिक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाकुड़, जिनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-1508 दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुई है, को अगले आदेश तक अध्यक्ष, अपीलीय न्यायाधिकरण, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

2. यह सद्यः प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।